

## प्रेस नोट थाना बेहट दिनांक 02-03-2021

### थाना बेहट व क्राइम ब्रांच, सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के जेवरात बरामद:-

अवगत कराना है कि वारदातों की रोकथाम हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल नेतृत्व में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बेहट के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बेहट व जनपद सहारनपुर की स्वाट टीम व अभिसूचना विंग को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 495/20 धारा 392/342 भादवि व मु0अ0सं0 94/21 धारा 457/380 भादवि के अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अनवारण हेतु संयुक्त रूप से लगाया गया था आज दिनांक 01.03.2021 को समय 16:00 बजे थाना बेहट व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा शाकुम्भरी रोड से जसमौर चौराहा से मिर्जापुर जाने वाले रास्ते पर लूट व चोरी के माल जेवरातों व नगदी सहित 03 अभिगणों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे कब्जे से लाखों रुपये के जेवरात व रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा जनपद के अन्य थानों में भी चोरी / नकबजनी की वारदात करना स्वीकार किया है। पूछताछ से अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे घुमन्तुक जाति के हैं, दिन के समय फूल बैचने या अन्य सामान बैचने के बहाने घुम घुमकर उन मकानों को चिह्नित करते हैं जिनमें उनको घटना कारित करनी होती है। घटना के समय रात्रि में ये लोग एकत्रित होकर घर पर धावा बोलते हैं व मकान एवं दुकानों में चोरी व लूट की वारदात कारित करते हैं। इनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 14/15-11-2020 की रात्रि को ग्राम कलसिया में श्री सचिन कुमार के मकान में घुसकर लूटपाट की घटना को स्वीकार किया गया है तथा दिनांक 19/20-02-2021 की रात्रि को ग्राम ताजपुरा की दुकानों के शटर तोड़कर गल्ले से चोरी करने की वारदात को स्वीकार किया गया है जिनके कब्जे से उपरोक्त लूट व चोरी के माल एलईडी आदि को बरामद किया है। इनके साथ गिरफ्तार महिला अभियुक्त भूरी अभियुक्तों के साथ दिन में घूम घूम कर मकानों को चिह्नित कराने में मदद करती है जिसकी एवज में वह लूट व चोरी के माल में हिस्सा लेती है। जिसके कब्जे से ग्राम कलसिया में हुयी लूट का माल बरामद हुआ है। कस्बा गागलहेडी में करीब 1 वर्ष साल पहले सर्राफा की दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने की घटना को भी स्वीकार किया है। इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

#### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त

1. शिव कुमार पुत्र मान सिंह निवासी इशोपुर थाना निगोही जनपद शहाजहाँपुर
2. रामपाल उर्फ पवन पुत्र मान सिंह निवासी इशोपुर थाना निगोही जनपद शहाजहाँपुर
3. भूरी पत्नी बब्लू निवासी इशोपुर थाना निगोही जनपद शहाजहाँपुर

#### बरामदी माल का विवरण

- 1-दो अंगूठी सोने की
- 2- एक चेन सोनी की
- 3- कानों की बाली सोने की
- 4- एक जोड़ी पाजेब चाँदी की
- 5- एक जोड़ी चुटकी
- 6- 2200/- रुपये नगद व खरीज
- 7- एक LED मोनीटर

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा थाना बेहट
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चिमा थाना बेहट
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह प्रभारी स्वाट टीम
4. उ0नि0 श्री मुबारिक हैसन स्वाट टीम
5. उ0नि0 श्री अजब सिंह स्वाट टीम
6. उ0नि0 श्री अजय कुमार गौड प्रभारी अभिसूचना विंग
7. हे0का0 658 बिट्टू कुमार थाना बेहट
8. का0 144 अंकित कुमार थाना बेहट
9. म0का0 1611 स्नेहा रानी थाना बेहट
10. स्वाट टीम जनपद सहारनपुर